



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27—अप्रैल 2, 2010 (चैत्र 6, 1932)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27—APRIL 2, 2010 (CHAITRA 6, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

योजना आयोग

नई दिल्ली-110101, दिनांक 8 मार्च 2010

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2010

सं. ए. 22012/1/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री शत्रुघ्न सिंह, आई.ए. एस. (उत्तराखण्ड : 83) को दिनांक 2 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2010

सं. ए-38012/2/2009-प्रशा.1--मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक, श्री के. एस. आचार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 28 फरवरी, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

ए. मोहनन, अवर सचिव

सं. ए-12025/3/2010-प्रशा.1--योजना आयोग की दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या ए-12025/02/2008-प्रशा.1 (पार्ट), दिनांक 16 फरवरी, 2009 और 30 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. ए-12025/1/2009-प्रशा.-1 के क्रम में राष्ट्रपति जी, योजना आयोग के निम्नलिखित नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि, योजना आयोग में वेतन बैंड-3 : 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन में उपसलाहाकार के पद पर उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीख से तदर्थ आधार पर प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित अवधि तक, अथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	पदनाम सहित अधिकारी का नाम	बढ़ाई गई अवधि से	तक
1	2	3	4
1.	श्री सी. ए. तिकौं, उपसलाहाकार (सामाजिक आयोजना)	1.4.2010	31.7.2010 (अधिवर्षिता की तारीख)
2.	डॉ. आर. पी. सिंह, उपसलाहाकार (शिक्षा)	12.02.2010	10.08.2010

1	2	3	4
3. श्री टी. के. चौधरी, उपसलाहकार (विद्युत)		12.2.2010	10.08.2010
4. श्री के. पी. सिंह उपसलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)		12.2.2010	10.08.2010

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त तदर्थ नियुक्ति से अधिकारियों को उपसलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और उपसलाहकार के ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा की गई सेवाओं की गणना न तो उपसलाहकार के ग्रेड में वरिष्ठता हेतु और न ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए की जाएगी।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 23 फरवरी 2010

सं. एफ. 6(2126)/2010-प्रशा. I--फाईल सं. 13016/1/2008-आईईएस से जारी किए गए आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 04.02.2010 के आदेश सं. टी-3/2010 के अनुसरण में, श्री आर. सी. श्रीनिवासन, एचएजी अधिकारी, आईईएस ने योजना आयोग में दिनांक 22 फरवरी 2010, के पूर्वाह्न से प्रधान सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2010

सं. एफ. 6(1898)/2004-प्रशा. I--डॉ. (श्रीमती) वंदना द्विवेदी, संयुक्त सलाहकार (कृषि), योजना आयोग की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप उन्हें उनके मूल मंत्रालय अर्थात् कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 25 फरवरी, 2010 (पूर्वाह्न) से प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. एफ. 6(1957)/2006-प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री श्रवण कुमार, आईईएस एवं निदेशक, योजना आयोग को दिनांक 28.2.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

सं. एफ. 6(1982)/2006-प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री लम्बूर रिझा, आईएसएस (एएम : 74), प्रधान सलाहकार योजना को दिनांक 28.2.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

एस. केशव अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. ए. 12025/14/2008-प्रशा. II--राष्ट्रपति जी, डॉ. आर. वी. पी. सिंह, स्थानापन्न अनुसंधान अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, नियमित पदोन्नति आधार पर पीबी-3, (रुपये 15,600--39100/-) + 5,400/- रु. ग्रेड पे में योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/समाज आयोजना/महिला कार्यक्रम) के पद पर दिनांक 03.02.2010 (पूर्वाह्न) से एवं अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 03 मार्च 2010

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा. II--योजना आयोग की दिनांक 04.08.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री गजानन माली, अनुसंधान सहायक, शहरी एवं ग्रामीण आयोजना संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की योजना आयोग में पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) तथा 5,400/- रुपये ग्रेड-पे में अनुसंधान अधिकारी के रूप में हुई तदर्थ प्रतिनियुक्ति अवधि को एतद्वारा 22.07.2010 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री गजानन माली को अनुसंधान अधिकारी ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा की वरिष्ठता निर्धारण हेतु न तो गणना की जाएगी और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता समझी जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 फरवरी 2010

सं. 12016/1/2003-आईएसएस--राष्ट्रपति, मंत्रालयों/विभागों में संवर्ग बाह्य पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) संवर्ग में शामिल कर लिए जाने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिफारिशों पर, भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 1961 के नियम 7 क के अनुसार 27.01.2010 से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उन ग्रेडों में नियुक्त करते हैं जो उनके नाम के सामने दर्शाए गए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	आईएसएस का ग्रेड जिसमें नियुक्त किए गए	पे बैंड और ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1.	श्री चन्द्र कांत (अनु.जा.)	संयुक्त निदेशक	जे ए जी	पीबी-3 रु. 15,600--39,100 + 7,600/-
2.	श्रीमती राज एस. त्रिवेदी (अधिवर्षिता पर 31.1.2010 से सेवानिवृत्त)	उप निदेशक	एस टी एस	पीबी-3 रु. 15,600--39,100 + 6,600/-

1	2	3	4	5
3.	श्री आर. बी. सिंह सांख्यिकी अधिकारी	जे टी एस	पीबी-3 रु. 15,600--39,100 + 5,400/-	
4.	डॉ. प्रभा अरोड़ा सहायक निदेशक	जे टी एस	पीबी-3 रु. 15,600--39,100 + 5,400/-	
5.	श्री सुदेश कुमार (अनु.जा.) सहायक निदेशक	जे टी एस	पीबी-3 रु. 15,600--39,100 + 5,400/-	

2. उपर्युक्त अधिकारियों की वरिष्ठता, सेवा नियमों में निर्धारित मानदण्डों और इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके संबंधित ग्रेडों में नियत की जाएगी।

एस. दास, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2010

सं. ए. 45011/22/2008-प्रशा. I (वि.वि.)--राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कैरिबियन कम्युनिटी सचिवालय (कैरीकोम), जॉर्ज टाउन, गुयाना में दिनांक 5 जनवरी, 2009 से 28 फरवरी, 2010 तक के विदेश समनुदेशन के बाद प्रत्यावर्तन पर डॉ. संजय सिंह ने दिनांक 2 मार्च, 2010 की अपराह्न से (1 मार्च 2010 को राजपत्रित अवकाश) विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 मार्च 2010

सं. के. 13024/1/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री जास्ति चलमेश्वर को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2010 को या उससे पहले केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 मार्च 2010

सं. के. 11019/2/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री रंजन गोमोड़ को, न्यायविद्

श्री जास्ति चलमेश्वर का स्थानान्तरण केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 मार्च 2010

सं. के. 13014/3/2009-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री शिंदे संभाजी शिवाजी (2) न्यायविद् श्री अशोक पितांबर भंगाले (3) न्यायविद् श्री आनन्द वसन्त निरगुडे और (4) न्यायविद् श्री राजीव यदुनाथ गानू को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री नंदकिशोर दिगंबर देशपाण्डे (2) श्रीमती रेखा प्रकाश सौंडरबलदोय और (3) श्री कैलासचंद उत्तमचंद चांदीवाल को, उसी वरीयता क्रम में, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए, बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 9 मार्च 2010

सं. के. 13026/5/2008-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री अखिलेश चन्द्र (2) श्री गोपाल प्रसाद और (3) श्री मुंगेश्वर साहू को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.-13023/3/2009/यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री बेनेडिक्ट विक्टर पिन्टो, (2) श्री बिजूर मनोहर, (3) श्री के. गोविन्दराजुलु और (4) श्री होसहल्ली शेषाद्रि केम्पण को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के.-13014/2/2009/यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजय विजयकुमार गंगापुरवाला को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 मार्च 2010

सं. के.-13029/01/2010/यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जोरा सिंह को, दिनांक 12 मार्च, 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 08 मार्च 2010

सं. 14031/1/2007/यू.टी.एस.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्री के. डी. सिंह दिनांक 28 फरवरी, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. आई-14011/8/2009/आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 09.03.2010 को चयन समिति की दिनांक 09-11-2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008 एवं 2009 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2008 में दो एवं 2009 में चार मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची--2008

क्रम अधिकारियों के नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री जे. सत्यनारायण	15.07.1957
2. श्री जे. प्रभाकर राव	12.08.1960

चयन सूची--2009

क्रम अधिकारियों के नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्व/श्री)	
1. जी. श्रीनिवास	24.10.1959
2. डी. नगेन्द्र कुमार	05.09.1962
3. ए. सत्यनारायण	04.11.1958
4. डॉ. वी. रविन्द्र	17.06.1960

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/8/2009/आईपीएस-1(II)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची--2008

क्रम अधिकारियों के नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री जे. सत्यनारायण	15.07.1957
2. श्री जे. प्रभाकर राव	12.08.1960

चयन सूची--2009

क्रम अधिकारियों के नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्व/श्री)	
1. जी. श्रीनिवास	24.10.1959
2. डी. नगेन्द्र कुमार	05.09.1962
3. ए. सत्यनारायण	04.11.1958
4. डॉ. वी. रविन्द्र	17.06.1960

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 08 मार्च 2010

सं. 14015/02/2008-अभासे(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2008 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश प्रखण्ड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए 21 अगस्त, 2009 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 20 नवम्बर, 2009 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई श्री गामली पाडु (अ.ज.जा.) (जन्म-तिथि : 06.06.1959) वाली संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के अरुणाचल प्रदेश प्रखण्ड के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती है।

2. रिट याचिका सं. 1803-1806/2010 और अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक खण्डपीठ द्वारा पारित दिनांक 11.02.2010 के अंतरिम आदेश के अनुसार, उक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारी को शामिल किया जाना इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/02/2008-अभासे(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2008 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्रियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अरुणाचल प्रदेश राज्य सिविल सेवा के एक सदस्य, श्री गामली पाडु (अ.ज.जा.) को अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करती है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के अरुणाचल प्रदेश प्रखण्ड संवर्ग में उनका आबंटन करती है।

2. रिट याचिका सं. 1803-1806/2010 और अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक खण्डपीठ द्वारा पारित दिनांक 11.02.2010 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 9 मार्च 2010

सं. 14015/1/2009-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ

पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति प्रवर सूची वर्ष 2009 के लिए, राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के आंध्र प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए, विनियम 5(5) के अंतर्गत 09 नवंबर, 2009 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत 30 मार्च, 2010 को अनुमोदित की गई आंध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

चयन सूची वर्ष 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री/सुश्री)		
1.	अनीता रामाचन्द्रन	17.06.1966
2.	के. वी. सत्यनारायन	06.08.1957
3.	के. निर्मला	10.03.1964
4.	एच. अरुण कुमार	15.06.1964
5.	एम. पद्मा	30.04.1960
6.	पी. ऊषा कुमारी (अनु. जा.)	15.01.1961
7.	पी. ए. शोभा	31.03.1962
8.	पार्वती सुब्रमनियन	10.12.1955
9.	के. हर्षवर्धन (अनु. जा.)	08.03.1965
10.	ए. शारथ (अनु. ज. जा.)	12.07.1965
11.	पी. भास्कर (अनु. ज. जा.)	01.01.1965

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना, रिट याचिका सं. 39137/2009 तथा माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष लम्बित बैच और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ के समक्ष लम्बित ओ.ए. सं. 1033/2009 के परिणाम के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/1/2009-अ.भा.से.(1)-(ख) --भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के लिए, राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्रियों पर आंध्र प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश संवर्ग में आबंटित करते हैं :--

चयन सूची वर्ष 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	अनीता रामाचन्द्रन	17.06.1966
2.	के. वी. सत्यनारायन	06.08.1957
3.	के. निर्मला	10.03.1964
4.	एच. अरुण कुमार	15.06.1964
5.	एम. पद्मा	30.04.1960
6.	पी. ऊषा कुमारी (अनु. जा.)	15.01.1961
7.	पी. ए. शोभा	31.03.1962
8.	पार्वती सुब्रमनियन	10.12.1955
9.	के. हर्षवर्धन (अनु. जा.)	08.03.1965
10.	ए. शारथ (अनु. ज. जा.)	12.07.1965
11.	पी. भास्कर (अनु. ज. जा.)	01.01.1965

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, रिट याचिका सं. 39137/2009 तथा माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष लम्बित बैच और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ के समक्ष लम्बित ओ. ए. सं. 1033/2009 के परिणाम के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2010

सं. 14015/05/2009-ए.आई.एस.(1)-क---भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्रिटियों को भरने के लिए, विनियम 5(5) के अंतर्गत 25 सितंबर, 2009 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 04 मार्च, 2010 को अनुमोदित की गई छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करती है :--

चयन सूची वर्ष 2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1*	ऑंकार सिंह (अ.ज.जा.)	03.11.1959
2.	हेमंत कुमार पहारे (अ.जा.)	05.09.1959
3.	दिलीप कुमार वासनीकर (अ.जा.)	06.01.1960
4.	अमृत कुमार खलखो (अ.ज.जा.)	20.07.1963

*सूची में क्रम सं. 1 पर नाम को अपराध संबंधी कार्यवाही की निकासी और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने की शर्त के अधीन अस्थायी रूप से शामिल किया गया है।

2. उक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों को शामिल किया जाना, रिट याचिका सं. 39137/2009 और 32-34/2010 तथा 215-222/2010 के निर्णय और बंगलौर स्थित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास लम्बित बैच की शर्त के अधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/05/2009-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2009 के लिए उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्रिटियों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं और उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उनको छत्तीसगढ़ संवर्ग में आर्बिट्रिट करती हैं :--

चयन सूची-2009

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	हेमंत कुमार पहारे (अ.जा.)	05.09.1959
2.	दिलीप कुमार वासनीकर (अ.जा.)	06.01.1960
3.	अमृत कुमार खलखो (अ.ज.जा.)	20.07.1963

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, रिट याचिका सं. 39137/2009 और 32-34/2010 तथा 215-222/2010 के निर्णय और बंगलौर स्थित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास लम्बित बैच की शर्त के अधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2010

सं. ए-32013/2/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री राजीव कपूर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यू.पी. : 83) को दिनांक 2 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पे बैंड-4 (पी.बी.-4) रु. 37,400/-+ 10,000/- (ग्रेड पे) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री राजीव मांझी, को दिनांक 15 फरवरी, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-3 अर्थात् रुपए 15,600--39,000/- + 7,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) में उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. 14012/04/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	2004	06.09.2006
2.	श्री शेखर विद्यार्थी	2004	06.09.2006

शौकत अली, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय : प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. डी-III/460/सीएफ-49/2009--भारत के राष्ट्रपति ने श्री दवीन्दर पाल सिंह को कोलकाता में अलबानिया गणराज्य के मानद प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री दवीन्दर पाल सिंह का कौंसली क्षेत्राधिकार पश्चिमी बंगाल राज्य होगा।

प्रकाश चन्द्र, न्याचार उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. 18 (फा.सं. ए-19012/02/2010-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री पी.टी. पांजेनर, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु.) को दिनांक 01.02.2010 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, राजस्व विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2010

सं. 22 (फा.सं. ए-19011/04/2010-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड सी ई: 75) के श्री शिशिर कुमार को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

के विशेष सचिव-सह महानिदेशक के रूप में वेतनमान रु. 80,000/- (निर्धारित) में भारत सरकार के विशेष सचिव की स्थिति में दिनांक 15.02.2010 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, या इनकी अधिवर्षिता तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2010

सं. ए. 22011/1/2009-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा के एनएफएसजी स्तर के अधिकारी श्री ज्ञान भूषण को 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400-67,000 के वेतन बैंड-4 में 03.11.2009 से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. ए-19012/4/2007-डीआरटी--बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देवी प्रसाद मिश्रा, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, रांची को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, गुवाहाटी के कार्यों का भी, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. 2/2010/ए-12022/40/2007-ई.IV--राष्ट्रपति, द्वारा सुश्री स्वर्णा श्रीनिवासन, भा.प्र.से. (टीएन : 1997) को दिनांक 19.02.2010 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत एमईपीजेड, चेन्नई में संयुक्त विकास आयुक्त (उप सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2010

सं. ए-12011/05/2009-मा.सं.-II--राष्ट्रपति, श्री सहदेव भारद्वाज, सहायक निदेशक (जहाजरानी), सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग-अ राजपत्रित, अनुसूचिवीय, को पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर उर्वरक विभाग में पीबी-3, 15,600-39,100/- रुपए एवं ग्रेड पे 6600/- रु. में

25.02.2010 (पूर्वाह्न) से सहायक आयुक्त (जहाजरानी) के पद पर नियुक्ति करती हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति, एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा सहायक आयुक्त (जहाजरानी) के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

एस.आर. घोष, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2010

सं. ए-12011/8/2006-प्रशासन--इस विभाग के दिनांक 03 मार्च, 2010 के कार्यालय आदेश संख्या 16/2010 के क्रम में राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित विधिक माप विज्ञान सहायक श्री चन्द्र शेखर शर्मा को दिनांक 05 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से उनको नियमित रूप से नियुक्त कर लिए जाने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर में 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) के वेतन बैंड और 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री चन्द्र शेखर शर्मा को सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में नियमित पदोन्नति, वरीयता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

संख्या ए-12011/4/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री सुखबीर, सहायक लेखा अधिकारी को मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दिनांक 04 मार्च, 2010 के कार्यालय आदेश संख्या 96/2010 के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में संवर्ग में शामिल किए गए लेखाकार के पद पर दिनांक 09 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 9,300--34,800/- रुपए (पीबी-2) के वेतन बैंड और 4,800/- रुपए (समूह 'ख' राजपत्रित) के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुखबीर, सहायक लेखा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उपभोक्ता मामले विभाग के सी.डब्ल्यू.एफ. अनुभाग में तैनात किया जाता है।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2010

सं. ए-38012/13/09-सी.एच.एस-II--मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ए.एफ.एस.जी.), आर.ओ.एच. एंड एफ.डब्ल्यू. के पद पर कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग के अधिकारी डॉ. जयंत कौशल की दिनांक 26.06.2009 को ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई।

माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. ए-12025/13/2009-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गिरीश एम. पी. को दिनांक 01 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदय रोग विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2010

सं. ए-38016/12/2009-स्था.-III--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सहायक निदेशक (तदर्थ) के रूप में कार्यरत आई.एस.एस. के जे.टी.एस. स्तर के अधिकारी, श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28 फरवरी, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2010

सं. ए-12025/4/2010-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, डॉ. आर. पी. मिश्रा, पशुधन अधिकारी को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में नियमित पदोन्नति आधार पर 03 मार्च, 2010 की पूर्वाह्न से 15,600--39,100 + 6,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में सहायक आयुक्त (पशुपालन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिता तिलरा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. ए-22012/2/2006-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 फरवरी, 2010 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2010-ई.ओ.(एस.एम.-I) के अनुसरण में तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय में महानिदेशक (निरीक्षण) श्री इवांस रिजा सोलोमन, आई.ए. एवं ए.एस. (80) को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वेतन बैंड (पीबी-4) 37,400--67,000/- रुपए और ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए में संयुक्त सचिव पद पर 04 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती हैं।

गोपाल दास, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2010

सं. 42018/11(i)/2004-स्था. (भाग)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 05/16/2007-सी.एस.-I दिनांक 25.08.2009 द्वारा वर्ष 2003 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के प्रवर्ण ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय में इस समय अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01.07.2003 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के प्रवर्ण ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल सं.
1.	श्री आर. राममूर्ति	4588
2.	श्री एन. रामाकृष्णन	5121
3.	श्रीमती इटालिया मोहन	5176
4.	श्री आर. एच. एच. हम्पर	5932
5.	श्री गोरधन लाल	5936

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 42018/11(ii)/2004-स्था. (भाग)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 05/08/2009-सी.एस.-I (यू) दिनांक 07.01.2010 द्वारा वर्ष 2005 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के प्रवर्ण ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय में इस समय अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री सुनील गर्ग (सीएसएल सं. 4914) को दिनांक 01.07.2005 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के प्रवर्ण ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. 12034/1/2009-स्था.--राष्ट्रपति, निदेशक श्री सुबोध अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.जे. : 88) को, जनजातीय कार्यमंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया) के निजी सचिव के रूप में, दिनांक 18.02.2010 के पूर्वाह्न से 30.05.2011 तक अर्थात् 5 वर्ष की अधिकतम सेवा-अवधि की शेष अवधि के लिए अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद करने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. 42018/11(iii)/2004-स्था. (भाग)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 05/08/2009-सीएस-1(यू) दिनांक 07 जनवरी

2010 द्वारा वर्ष 2006 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के प्रवर्ण ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय में इस समय अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री ए. के. साहा (सीएसएल सं. 5610) को दिनांक 01 जुलाई 2006 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के प्रवर्ण ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. के. पोपली, निदेशक

दिनांक 25 फरवरी 2010

सं. 19011/15/2005-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 फरवरी 2010 के कार्यालय आदेश सं. 10/22/2006-ई.ओ. (एम.एम.-I) के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में श्री सनोज कुमार झा, आई.ए.एस. (एस.के. : 97), जो इस समय "कम्पलसरी वेट" पर हैं, को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सेवा-अवधि अर्थात् 3 वर्ष, 9 माह तथा 28 दिन के शेष समय के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक, उन्हें वाणिज्य विभाग में उप सचिव का नया पदभार ग्रहण करने हेतु इस मंत्रालय से 25 फरवरी 2010 अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

जे. के. पोपली, निदेशक (प्रशा.)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मार्च 2010

सं. 4569/एनआईसी/2010-प्रशा.-II--केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक एतद्वारा श्रीमती रेखा गुप्ता, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी", (कर्मचारी कोड सं. 4569) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से सेवाओं से हटाते हैं।

बी. पी. सैनी, उप निदेशक (प्रशा. II)

सं. 4744/एनआईसी/2009-प्रशा.-II--राष्ट्रपति ने सुश्री अंजू (कर्मचारी कोड सं. 4744) का रासूविकेन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 11 सितम्बर 2009 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है तथा 12 मार्च 2007 से 02 मार्च 2009 तक व 21 अगस्त 2009 से 11 सितम्बर 2009 तक की अवधि में उनकी अनुपस्थिति को अकार्यदिन माना जाये।

बी. पी. सैनी, उप निदेशक (प्रशा. II)

सं. 4956/एनआईसी/2010-प्रशा.-II--केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15(4) के अंतर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री ए. सत्यनारायण, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी", (कर्मचारी कोड सं. 4956) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से सेवाओं से हटाते हैं।

बी. पी. सैनी, उप निदेशक (प्रशा. II)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 फरवरी 2010

सं. 39-1/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति सहर्ष डाक विभाग में निजी सचिवों के रूप में निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड "सी" की रु. 9,300--34,800/-+4800/-रु. (ग्रेड वेतन) के संशोधित वेतन बैंड (पीबी-2) में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को 30 जून 2010 तक या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित नियमित निजी सचिव उपलब्ध कराने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

1. श्री बी. के. भाटिया
2. श्री बी. पी. रंगा
3. श्री प्रभुदयाल
4. सुश्री गीता देवी
5. श्री सी. पी. अरोड़ा

2. यह नियुक्तियां पूर्णतया तदर्थ आधार पर हैं और अधिकारी को केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा के स्टेनो ग्रेड "ए एवं बी" (विलयित) (निजी सचिव) में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता अथवा पदोन्नति या स्थायीकरण के लिए पात्रता का दावा करने के लिए हक प्रदान नहीं करती।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सं. 3-5/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति सहर्ष डाक विभाग के सीएसएसएस के निजी सचिवों की डाक विभाग में प्रधान निजी सचिवों के तौर पर 31 दिसम्बर 2009 तक अथवा जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अधिकारी नामित किए जाते हैं अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 15,600--39,100/- +6,600/-रु. (ग्रेड वेतन) के संशोधित वेतन बैंड (पीबी-3) में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :-

1. श्री आर. के. मंगल
2. श्री श्यामल मुखर्जी
3. सुश्री प्रतिमा शर्मा

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर हैं और उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सं. 3-5/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति सहर्ष डाक विभाग के सीएसएसएस के निजी सचिवों की डाक विभाग में प्रधान निजी सचिवों के तौर पर

30 जून 2010 तक अथवा जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अधिकारी नामित किए जाते हैं अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 15,600--39,100/-+6,600/-रु. (ग्रेड वेतन) के संशोधित वेतन बैंड (पीबी-3) में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं :-

1. श्री आर. के. मंगल
2. श्री श्यामल मुखर्जी
3. सुश्री प्रतिमा शर्मा

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर हैं और उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2010

सं. ए-31013/01/2003-आर. एस.--राष्ट्रपति, श्री रंजीत प्रसाद यादव, स्थानापन्न रेल संरक्षा आयुक्त को सहर्ष दिनांक 22 अगस्त 2009 से समान पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2010

सं. ईआरबी-1/2007/10/04--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी 2010 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| (i) श्री आई. सी. शर्मा | सलाहकार बिजली (सामान्य) |
| (ii) श्री विरेन्द्र मिश्रा | उप आर्थिक सलाहकार |
| (iii) श्री एस. डी. जैन | प्रोग्रामर |
| (iv) श्री आर. के. शर्मा | अनुभाग अधिकारी |
| (v) श्रीमती चन्द्र गुलाटी | अनुभाग अधिकारी |

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2010

सं. ए-38020/01/2010-ई-II--सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधिकारी श्री निर्मलजीत सिंह, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 28.02.2010 (अपराह्न) को कार्यमुक्त किया जाता है।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2010

सं. ए-12025/1/2010-ई-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.01.2010 के आदेश सं. 5/8/2009-सीएस-1 के तहत वर्ष 2006 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में उनकी तैनाती किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री सुशील कुमार जीवा को दिनांक 11.01.2010 (पूर्वाह्न) से 15,600--39,100/- रुपये के पे बैंड और 6,600/- रुपये के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

सं. ए-12022/1/2009-ई-1--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2010 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2009-सीएस-1 (यू) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम वर्ष 2004--2008 की चयन सूचियों में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों जो इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं अथवा जो संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, को चयन सूची की अपनी वरिष्ठता के क्रम में संबंधित चयन सूचियों की 1 जुलाई से, नियमित आधार पर, अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल सं.	चयन सूची का वर्ष	चयन सूची में क्रम सं.	नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती पूर्णिमा राजेंद्रन	5370	2005	91	01.07.2005
2.	श्री नईम अहमद सिद्दीकी	5435	2006	44	01.07.2006
3.	श्री कन्हाई चरण बेहड़ा	5513	2006	78	01.07.2006
4.	श्री पी. पी. नायर	5603	2006	87	01.07.2006
5.	श्री देवराज शर्मा	5958	2007	01 (विस्तारित पैनल)	01.07.2007
6.	श्री विवेक आशीष	5960	2008	06	01.07.2008
7.	श्रीमती प्रेमलता कौशिक	6048	2008	50	01.07.2008

2. उपर्युक्त चयन सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति को अनुमोदित सेवा के उद्देश्य से और अवर सचिव के रूप में काल्पनिक आधार पर उनका वेतन निर्धारित किए जाने के लिए उनकी संबंधित चयन सूचियों को 01 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। तथापि, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड में इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों के लिए वास्तविक लाभ, नियुक्ति की वास्तविक तारीख से उपलब्ध होंगे।

3. उपर्युक्त चयन सूचियों में उनके नाम शामिल किए जाने पर अधिकारी, अपने वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण अवर सचिव के पद पर अपनी वास्तविक नियुक्ति की तारीखों से बकाया वेतन के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी एफआर-22 के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का चयन करने के भी हकदार होंगे। तथापि, ऐसे अधिकारी जिन्हें अपनी संबंधित चयन सूचियों की 01 जुलाई से पहले तदर्थ अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था और जिन्होंने विभक्त विकल्प का लाभ उठाया था, इस विकल्प का पुनः लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।

4. नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में उपर्युक्त चयन सूचियों में शामिल उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13352/2005; केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में

श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ के नाम से ओ.ए. सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य के नाम से ओ. ए. सं.-2674/2009 के मामले में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. 62/2010 (फा. सं. 5/5/2007-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, आर्थिक मामले, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24.12.2009 के आदेश सं. टी-38/2009 के तहत तथा वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 22 फरवरी, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 8/2010 (ए-12025/1/2000-स्था. से जारी) द्वारा कार्यमुक्त होकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके स्थानांतरण के फलस्वरूप सुश्री प्रोमोदीता, आई.ई.एस. को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दिनांक 22.02.2010 (अप.) से उप आर्थिक सलाहकार के रूप में, अगले आदेश के जारी होने तक, नियुक्त करती हैं।

रामफल, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2010

सं. 67/2010 (फा. सं. 5/1/2007 (खण्ड)-प्रशासन-II)--
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप
सचिव (चयन ग्रेड) श्री एस. पी. वीर, इस मंत्रालय में उप सचिव के पद
को धारण करते हुए दिनांक 28.02.2010 (अपराह्न) को सरकारी
सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रामफल, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. ए-32012/14/2006-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, डॉ. कौशिक
सरकार को दिनांक 15.02.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक
10,000-325-15,200/- रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में खान सुरक्षा
महानिदेशालय, धनबाद में सहायक निदेशक खान सुरक्षा (ओएच) ग्रेड-I
के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 8th March 2010

No. A.22012/1/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri Shatrughna Singh, IAS (UK:83) as Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 2nd March, 2010 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd March 2010

No. A-38012/2/2009-Ad.I—On attaining the age of superannuation, Shri K. S. Achar, Director Cabinet Secretariat retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February 2010.

A. MOHANAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th February 2010

No. A-12025/3/2010-Admn.I—In continuation of Planning Commission's Notifications Number A-12025/02/2008-Admn.I (Part) dated 6th October, 2009, No. A-12025/1/2009-Admn.I dated 16th February, 2009 and 30th March, 2009, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of following regular Senior Research Officers of Planning Commission against the posts of Deputy Adviser in Planning Commission as mentioned against their names in Pay Band 3 : Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad-hoc basis for the period as mentioned against each, or till regular appointment against the posts or until further orders, whichever is the earliest :—

Sl. No.	Name of the Officer with designation	Term extended	
		From	To
1.	Shri C. A. Tirkey, Deputy Adviser (Social Planning)	01.04.2010	31.07.2010 (date of superannuation)
2.	Dr. R. P. Singh, Deputy Adviser (Education)	12.02.2010	10.08.2010
3.	Shri T. K. Choudhury, Deputy Adviser (Power)	12.02.2010	10.08.2010
4.	Shri K. P. Singh, Deputy Adviser (Project Appraisal)	12.02.2010	10.08.2010

2. It is made clear that the above said ad-hoc appointments will not bestow on the officers any right to claim for regular appointments in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by them on ad-hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 23rd February 2010

No. F.6 (2126)/2010-Admn.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-3/2010 dated 04.02.2010 issued from File No. 13016/1/2008-IES, Shri R. C. Srinivasan, HAG + Officer of IES, has assumed charge as Principal Adviser in Planning Commission with effect from the forenoon of 22nd February, 2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 25th February 2010

No. F.6 (1898)/2004-Admn.I—Consequent upon completion of her deputation tenure in Planning Commission, Dr. (Smt.) Vandana Dwivedi, Joint Adviser (Agriculture), Planning Commission stands repatriated to her parent Ministry viz. Ministry of Agriculture & Cooperation, New Delhi with effect from the forenoon of 25th February, 2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 26th February 2010

No. F.6 (1957)/2006-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Sarvan Kumar, IES and Director, Planning Commission retires from Government Service w.e.f. 28.02.2010 (A.N.).

S. KESAVA IYER, Dy. Secy.

No. F.6 (1982)/2006-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Lambor Rynjah, IAS (AM:74), Principal Adviser, Planning Commission retires from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

New Delhi, the 19th February 2010

No. A-12025/14/2008-Admn.II—The President is pleased to appoint Dr. R. V. P. Singh officiating Research Officer, on the recommendation of UPSC to the post of Research Officer (Sociology/Social Planning/Women's Programme) in the Planning Commission in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular promotion basis with effect from 03.02.2010 (FN) and until further orders.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 3rd March 2010

No. A-12025/01/2005-Admn.II—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 04.08.2009, the term of ad-hoc deputation period of Shri Gajanan Mali, Research Assistant, Town & Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development, New Delhi as Research Officer in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—

39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Planning Commission is hereby extended till 22.07.2010, or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earliest.

2. The ad-hoc appointment will not bestow on Shri Gajanan Mali any claim for regular appointment in the grade of Research Officer and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 23rd February 2010

No. 12011/1/2003-ISS—On the recommendations of the Union Public Service Commission (UPSC) for their encadrement into the Indian Statistical Service (ISS), the President is pleased to appoint the following officers working against ex-cadre posts in the Departments/Ministries (indicated against their names), to the grades into the Indian Statistical Service (ISS) mentioned against their names with effect from 27.01.2010, in terms of Rule 7A of ISS Rules, 1961:—

Sl. No.	Name	Designation	Grade of ISS into which Appointed	Pay Band and Grade Pay
(S/Shri/Ms/Smt.)				
1.	Chander Kant (SC)	Joint Director	JAG	PB-3 Rs. 15,600— 39,100+7,600
2.	Raj S. Trivedi (retired on superannuation w.e.f. 31.01.2010)	Deputy Director	STS	PB-3 Rs. 15,600— 39,100+6,600
3.	R. B. Singh	Statistical Officer	JTS	PB-3 Rs. 15,600— 39,100+5,400
4.	Dr. Prabha Arora	Asstt. Director	JTS	PB-3 Rs. 15,600— 39,100+5,400
5.	Sudesh Kumar (SC)	Asstt. Director	JTS	PB-3 Rs. 15,600— 39,100+5,400

2. The seniority of the above said officers will be fixed in the respective grades as per the norms laid down in the Service Rules and according to the guidelines issued by the Department of Personnel & Training, from time to time in this regard.

S. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 8th March 2010

No. A.45011/22/2008-Admn.I(L.D.)—On repatriation from his foreign assignment in the Caribbean Community Secretariat (CARICOM), George Town, Guyana under the Commonwealth Secretariat, London, United Kingdom for a period from 5th January, 2009 to 28th February, 2010, Dr. Sanjay Singh has assumed the charge of the post of Joint Secretary and Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 2nd March, 2010 (1st March, 2010 being holiday).

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 3rd March 2010

No. K. 13024/1/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Jasti Chelameswar, Chief Justice of the Gauhati High Court as the Chief Justice of the Kerala High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Kerala High Court on or before 17th March, 2010.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 4th March 2010

No. K. 11019/2/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President to appoint Justice Shri Ranjan Gogoi, Seniormost Judge of the Gauhati High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Justice Shri Jasti Chelameswar relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Gauhati High Court consequent upon his transfer as the Chief Justice of the Kerala High Court.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 8th March 2010

No. K. 13014/3/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Justice Shri Shinde Sambhaji Shiwaji, (2) Justice Shri Ashok Pitamber Bhangale, (3) Justice Shri Anand Vasant Nirgude, and (4) Justice Shri Rajiv Yadunath Ganoo, Additional Judges to be Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their offices.

2. In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Nandkishor Digambar Deshpande, (2) Smt. Rekha Prakash Sondur Baldota, and (3) Shri Kailashchand Uttamchand Chandiwal, as Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of 1 year with effect from 16th April, 2010.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 9th March 2010

No. K. 13026/5/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Akhilesh Chandra, (2) Shri Gopal Prasad, and (3) Shri Mungeshwar Sahoo, to be Additional Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13023/3/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Benedict Victor Pinto, (2) Shri Bijoor Manohar, (3) Shri K. Govindarajulu, and (4) Shri Hosahalli Sheshadri Kempanna, to be Additional Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13014/2/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Vijaykumar Gangapurwala, to be an Additional Judge of the Bombay High Court, for a period of two years with effect from the date he assume charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 10th March 2010

No. K. 13029/01/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Jora Singh, to be an Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, for a period of one year with effect from 12th March, 2010.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 8th March 2010

No. 14031/1/2007-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri K. D. Singh, an Indian Police Service

Officer of 1985 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories retired from service in the afternoon of 28th February, 2010.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 15th March 2010

No. I-14011/8/2009-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 09.03.2010, approved the year-wise Select List of 2008 and 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 09.11.2009, containing the names of the following State Police Service Officers of Andhra Pradesh, towards filling up 2 and 4 substantive vacancies during 2008 and 2009 respectively in the Andhra Pradesh Cadre of IPS :—

SELECT LIST-2008

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri J. Satyanarayana	15.07.1957
2.	Shri J. Prabhakar Rao	12.08.1960

SELECT LIST-2009

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri G. Srinivas	24.10.1959
2.	Shri D. Nagendra Kumar	05.09.1962
3.	Shri A. Satyanarayana	04.11.1958
4.	Shri Dr. V. Ravinder	17.06.1960

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/8/2009-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Andhra Pradesh Police Service to the Indian Police Service on Probation and to allocate them to the Andhra Pradesh under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

SELECT LIST-2008

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri J. Satyanarayana	15.07.1957
2.	Shri J. Prabhakar Rao	12.08.1960

SELECT LIST-2009

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri G. Srinivas	24.10.1959
2.	Shri D. Nagendra Kumar	05.09.1962
3.	Shri A. Satyanarayana	04.11.1958
4.	Dr. V. Ravinder	17.06.1960

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &
PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th March 2010

No. 14015/02/2008-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Arunachal Pradesh segment of Joint AGMUT Cadre containing the name of Sh. Gamli Padu (ST) (Date of Birth : 06.06.1959) prepared on 21st August, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 20th November, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of AGMUT (Arunachal Pradesh Segment) under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government during the Select List Year 2008.

2. As per Interim Order dated 11.02.2010 passed by Hon'ble High Court, Karnataka Bench in Writ Petitions No. 1803-1806/2010 and other connected Writ Petitions, the inclusion of the above officer in the said Select List is subject to result of these Writ Petitions.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/02/2009-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Gamli Padu (ST), a member of the State Civil Service of Arunachal Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List Year 2008, on probation until further orders and to allocate him to Arunachal Pradesh segment of the Joint AGMUT Cadre

of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. As per Interim Order dated 11.02.2010 passed by Hon'ble High Court, Karnataka Bench in Writ Petitions No. 1803-1806/2010 and other connected Writ Petitions, the appointment of the above officer is subject to result of these Writ Petitions.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 9th March 2010

No. 14015/01/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Andhra Pradesh containing the following names prepared on 9th November, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 3rd March, 2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Andhra Pradesh under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List Year 2009 :—

SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Anita Ramachandran	17.06.1966
2.	K. V. Satyanarayan	06.08.1957
3.	K. Nirmala	10.03.1964
4.	H. Arun Kumar	15.06.1964
5.	M. Padma	30.04.1960
6.	P. Usha Kumari (SC)	15.01.1961
7.	P. A. Shobha	31.03.1962
8.	Parvathi Subramanian	10.12.1955
9.	K. Harshavardhan (SC)	08.03.1965
10.	A. Sharath (ST)	12.07.1965
11.	P. Bhaskara (ST)	01.01.1965

2. The inclusion of the above officers in the said Select List is subject to result of the Writ Petition No. 39137/2009 and batch pending before Hon'ble High Court of Karnataka and OA No. 1033/2009 pending before the Hon'ble CAT, Hyderabad Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/01/2009-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion)

Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009, on probation until further orders and to allocate them to the Andhra Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Anita Ramachandran	17.06.1966
2.	K. V. Satyanarayan	06.08.1957
3.	K. Nirmala	10.03.1964
4.	H. Arun Kumar	15.06.1964
5.	M. Padma	30.04.1960
6.	P. Usha Kumari (SC)	15.01.1961
7.	P. A. Shobha	31.03.1962
8.	Parvathi Subramanian	10.12.1955
9.	K. Harshavardhan (SC)	08.03.1965
10.	A. Sharath (ST)	12.07.1965
11.	P. Bhaskara (ST)	01.01.1965

2. The appointment of the above officers is subject to result of the Writ Petition No. 39137/2009 and batch pending before Hon'ble High Court of Karnataka and OA No. 1033/2009 pending before the Hon'ble CAT, Hyderabad Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 12th March 2010

No. 14015/05/2009-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Chhattisgarh containing the following names prepared on 25th September, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 4th March, 2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Andhra Pradesh under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 :—

SELECT LIST 2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.*	Onkar Singh (ST)	03.11.1959
2.	Hemant Kumar Pahare (SC)	05.09.1959
3.	Dilip Kumar Wasnikar (SC)	06.01.1960
4.	Amrit Kumar Khalkho (ST)	20.07.1963

*The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings and grant of Integrity Certificate by the State Government.

2. The inclusion of the above officers in the said Select List is subject to result of the Writ Petition No. 39137/2009 and 32-34/2010 & 215-222/2010 and batch pending before Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/05/2009-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Chhattisgarh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009, on probation until further orders and to allocate them to the Chhattisgarh, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Hemant Kumar Pahare (SC)	05.09.1959
2.	Dilip Kumar Wasnikar (SC)	06.01.1960
3.	Amrit Kumar Khalkho (ST)	20.07.1963

2. The appointment of the above officers is subject to result of the Writ Petition No. 39137/2009 and 32-34/2010 & 215-222/2010 and batch pending before Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 15th March 2010

No. A-32013/2/2010-Ad.-I—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kapoor, IAS (UP: 83), as Joint Secretary in the Pay Band-4 (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 2nd March, 2010 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

HARISH CHANDER, Under Secy.

No. A-32013/1/2010-Ad.-I—The President is pleased to appoint Rajiv Manjhi, as Deputy Secretary, in the Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (G.P.), in Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 15th February, 2010 until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 11th March 2010

No. 14012/04/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Dr. Rajender Kumar	2004	06.09.2006
2.	Shri Shekhar Vidyarthi	2004	06.09.2006

SHAUKAT ALI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL)

New Delhi, the 26th February 2010

No. D-III/460/CF-49/2009—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. Devinder Pal Singh as Honorary Consul General of the Republic of Albania in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Devinder Pal Singh comprises the State of West Bengal.

PRAKASH CHAND, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 16th February 2010

No. 18 (F.No. A-19012/02/2010-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri P. T. Pongener, IRS (C&CE) as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four

years with effect from 01.02.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 24th February 2010

No. 22 (F.No. A-19011/4/2010-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Shishir Kumar, IRS (C&CE:75), as Special Secretary-cum-Director General of the Central Economic Intelligence Bureau under the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 15.02.2010 (FN) and until further orders or till his superannuation, whichever event takes place earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 10th March 2010

No. A-22011/1/2009-Admn.-IA—The President is pleased to appoint Shri Gyan Bhusan as NFSG Level Officer of IES as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/-, w.e.f. 03.11.2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 26th February 2010

No. A-19012/4/2007-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri Debi Prasad Mishra, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Guwahati, in addition to his own charge until further orders.

AMRIK SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 11th March 2010

No. 2/2010 (F.No. A-12022/40/2007-E-IV)—The President is pleased to appoint Ms. Swarna Srinivasan, IAS (TN:1997) as Joint Development Commissioner, (Deputy Secretary Level), MEPZ, Chennai under the Department of Commerce for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier with effect from 19.02.2010 (FN).

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 25th February 2010

No. A-12011/05/2009-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. Sahdev Bhardwaj, AD (Shipping), General Central Services, Group-A Gazetted, Non-Ministrial as Assistant Commissioner (Shipping) in the Department of Fertilizers in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 25.02.2010 (FN) on ad-hoc basis by way of promotion.

The ad-hoc appointment is for a period of one year or till a regular appointment is made to the post of Assistant Commissioner (Shipping), whichever is earlier.

S. R. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 10th March 2010

No. A-12011/8/2006-Estt.—In continuation of this Department's Office Order No. 16/2010 dated the 3rd March, 2010, the President is pleased to appoint Shri Chandra Shekhar Sharma, a regular Metrological Assistant in the Department of Consumer Affairs, as Assistant Director (Legal Metrology) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 5th March, 2010 in Regional Reference Standards Laboratory, Bangalore for a period of one year or till he is appointed on regular basis in consultation with the UPSC or until further orders, whichever is the earliest.

2. This ad-hoc promotion would not bestow on Shri Chandra Shekhar Sharma any right to claim regular promotion, seniority etc. in the grade of Assistant Director (Legal Metrology).

PREMA BHATT, Under Secy.

No. A-12011/4/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sukhbir, AAO as Assistant Accounts Officer against the encadred post of Accountant in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with a Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group 'B' Gazetted) with effect from the forenoon of 9th March, 2010 until further Orders in pursuance of the Office Order No. 96/2010 dated 4th March, 2010 from the Office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

2. Shri Sukhbir, AAO is posted in CWF Section of the Department of Consumer Affairs with immediate effect.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th March 2010

No. A-38012/13/09-CHS-II—Dr. Jayant Kaushal an officer of General Duty Sub-cadre of Central Health Service posted as CMO(NFSG), ROH&FW, Patna died in harness on 26.06.09.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 15th March 2010

No. A-12025/13/2009-CHS-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Girish M. P. to the post of Assistant Professor in the specialty of Cardiology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation with effect from the forenoon of the 1st January, 2010, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 9th March 2010

No. A-38016/12/2009-Estt.-III—Shri Surender Kumar, a JTS Level Officer of ISS, working as Assistant Director (ad-hoc), in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare on attaining the age of superannuation has retired from the Government Service w.e.f. 28th February, 2010 (AN).

ANIL UNIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 5th March 2010

No. A-12025/4/2010-Admn.-I—The President is pleased to appoint Dr. R. P. Misra, Livestock Officer as Assistant Commissioner (Animal Husbandry) in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) w.e.f. the forenoon of 3rd March, 2010 on regular promotion basis in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

ANITA TIPRA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 11th March 2010

No. A-22012/2/2006-Estt.—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2010-EO(SM-I) dated 22nd February, 2010, the President is pleased to appoint Shri Evans Rynjah Solomon, IA&AS (80) and Director General (Inspection) in the office of the Comptroller & Auditor General of India, as Joint Secretary in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/-

with effect from 4th March, 2010 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

GOPAL DASS, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th February 2010

No. 42018/11(i)/2004-Estt.(pt.)—Consequent upon their inclusion in the Select List year 2003 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel and Training O.M. No. 5/16/2007-CS-I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint the following CSS officers, presently working as Under Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Tribal Affairs, to the Grade-I (Under Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2003 :—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No.
1.	Shri R. Ramamurthy	4588
2.	Shri N. Ramakrishnan	5121
3.	Smt. Italia Mohan	5176
4.	Shri R. H. H. Hmar	5932
5.	Shri Gordhan Lal	5936

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 42018/11(ii)/2004-Estt.(pt.)—Consequent upon his inclusion in the Select List year 2005 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel and Training O. M. No. 5/8/2009-CS-I(U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint Shri Sunil Garg (CSL No. 4914), presently working as Under Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Tribal Affairs to the Grade-I (Under Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2005.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 19th February 2010

No. 12034/1/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Subodh Agarwal, IAS (RJ:88), as Private Secretary to the Minister of Tribal Affairs (Shri Kanti Lal Bhuria) at the level of Director for the remaining period out of the maximum tenure of 5 years i. e. upto 30.05.2011, with effect from the forenoon of 18.02.2010 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is the earliest.

A. K. SAHA, Under Secy.

New Delhi, the 18th February 2010

No. 42018/11(iii)/2004-Estt.(pt.)—Consequent upon his inclusion in the Select List year 2006 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service

(CSS) vide Department of Personnel and Training O. M. No. 5/8/2009-CS-I(U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint Shri A. K. Saha (CSL No. 5610), presently working as Under Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Tribal Affairs to the Grade-I (Under Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2006.

J. K. POPLI, Director

The 25th February 2010

No. 19011/15/2005-Estt.—In pursuance of DoPTs O.M. No. 10/22/006-EO (MM-I) dated 22.02.2010, the President is pleased to relieve Sh. Sanoj Kumar Jha, IAS (SK:97), presently on 'Compulsory Wait' as PS to Hon'ble Minister of Tribal Affairs with effect from the afternoon of 25.02.2010 to take up his new assignment as Deputy Secretary in the Department of Commerce the balance period of his Central Deputation Tenure viz for a period of 3 years, 9 months and 28 days with effect from the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever is the earliest.

J. K. POPLI, Director (Admn.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 10th March 2010

No. 4569/NIC/2010-Adm.-II—The Director General, NIC in exercise of the power conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, removes Ms. Rekha Gupta, Scientific Officer/Engineer-SB (Emp. Code No. 4569) from services in the National Informatics Centre, Department of Information Technology w.e.f. 07.12.2009.

B. P. SAINI, Dy. Director (Admn.-II)

No. 4744/NIC/2009-Admn.-II—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Anju (Emp. Code No. 4744) from the post of Scientist 'B', NIC-Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 11.09.2009 and she is relieved of her duties from the same day. Her period of absence from 12.03.2007 to 02.03.2009 and from 21.08.2009 to 11.09.2009 will be treated as dies-non.

B. P. SAINI, Dy. Director (Admn.-II)

No. 4956/NIC/2010-Admn.-II—The Director General, NIC in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, removes Shri A. Sathyanarayana, Scientific Officer/Engineer-SB (Emp. Code No. 4956) from services in the National Informatics Centre, Department of Information Technology w.e.f. 07-12-2009.

B. P. SAINI, Dy. Director (Admn.-II)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 25th February 2010

No. 39-1/2006-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following Stenographers Grade 'C' of CSSS as Private Secretaries in the Department of Posts in the Revised Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) for the period upto 30.06.2010 or till regular Private Secretaries nominated by DoP&T become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri V. K. Bhatia
2. Shri V. P. Ranga
3. Shri Prabhu Dayal
4. Ms. Geeta Devi
5. Shri C. P. Arora

2. These appointments are purely on adhoc basis and will not bestow on the officers any claim for regular appointment, seniority or eligibility for promotion and confirmation in Steno Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretaries) of Central Secretariat Stenographers' Service.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. General (Admn.)

No. 3-5/2005-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following Private Secretaries of CSSS as Principal Private Secretaries in the Department of Posts in the Revised Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) for the period upto 31.12.2009 or till regular officers nominated by DoP&T become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri R. K. Mangal
2. Shri Shyamal Mukherjee
3. Ms. Pratima Sharma

2. These appointments are purely on adhoc basis and will not bestow on the officers any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or seniority in the grade of Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers' Service.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. General (Admn.)

No. 3-5/2005-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following Private Secretaries of CSSS as Principal Private Secretaries in the Department of Posts in the Revised Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) for the period upto 30.06.2010 or till regular officers nominated by DoP&T

6—512 GI/2009

become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri R. K. Mangal
2. Shri Shyamal Mukherjee
3. Ms. Pratima Sharma

2. These appointments are purely on adhoc basis and will not bestow on the officers any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or seniority in the grade of Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers' Service.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 12th March 2010

No. A-31013/01/03-RS—The President is pleased to appoint Shri Ranjeet Prasad Yadav, an officiating Commissioner of Railway Safety in the substantive capacity in the same post with effect from 22.08.2009.

OMANAND, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 8th March 2010

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.01.2010 :—

1. Shri I. C. Sharma, Adviser Electrical (G)
2. Shri Virendra Mishra, Dy. Economic Adviser
3. Shri S. D. Jain, Programmer
4. Shri R. K. Sharma, Section Officer
5. Smt. Chander Gulati, Section Officer

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 5th February 2010

No. A-38020/01/2010-E-II—On attaining the age of superannuation, Shri Nirmal Jit Singh, Director General (Road Development) & Special Secretary, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport and Highways, New Delhi has retired from Government Service on 28.02.2010 (AN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 15th February 2010

No. A-12025/1/2010-E-I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS for year 2006 and

his posting as Under Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways, vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/8/2009-CS-I (U) dated 08.01.2010, the President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar Geeva, a regular Section Officer of CSS, as Under Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways on regular basis in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay w.e.f. 11.01.2010 (FN).

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

No. A-12022/1/2009-E-I—Consequent upon inclusion of their names in the Select Lists for the years 2004-2008 of the officers of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service, vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M.No. 5/8/2009-CS-I(U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of Central Secretariat Service, who are presently working as Under Secretaries in the Ministry of Road Transport & Highways on ad-hoc basis or are on deputation to ex-cadre posts, as Under Secretaries on regular basis w.e.f. 1st July of their respective Select Lists, in the order of their seniority in the Select Lists:—

Sl. No. of the Officer	CSL No.	Select List Year	Sl. No. in the Select List	Date of appointment as Under Secretary on regular basis
1. Smt. Poornima Rajendran	5370	2005	91	01.07.2005
2. Shri Naeem Ahmed Siddiqui	5435	2006	44	01.07.2006
3. Shri Kahnei Charan Behera	5513	2006	78	01.07.2006
4. Shri P. P. Nair	5603	2006	87	01.07.2006
5. Shri Dev Raj Sharma	5958	2007	01 (Extended Panel)	01.07.2007
6. Shri Vivek Ashish	5960	2008	06	01.07.2008
7. Smt. Prem Lata Kaushik	6048	2008	50	01.07.2008

2. The appointment of the officers included in the afore-said Select List may be deemed to have been made effective with effect from 1st July of their respective Select Lists, for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits however would be available only from the date, officers so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

3. On inclusion of their names in the aforesaid Select Lists, the officers would be entitled to arrears on account of re-

fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per provisions of FR-22. However, such officers were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their respective Select Lists and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

4. The appointment of the above-mentioned officers included in the afore-said Select Lists to the Grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI in CAT, New Delhi and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Others.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 26th February 2010

No. 62/2010 (F.No. 5/5/2007-Admn.-II)—Consequent upon her transfer to the Ministry of Information & Broadcasting vide Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's Order No. T-38/2009, dated 24.12.2009 and on being relieved by the Ministry of Textiles, vide its Office Order No. 8/2010 (issued from A-12025/1/2000-Estt.), dated 22nd February, 2010, the President is pleased to appoint Ms. Promodita, I.E.S., as Deputy Economic Adviser, in the Ministry of Information & Broadcasting with effect from the afternoon of 22.02.2010, until further orders.

RAM PHAL, Under Secy.

The 5th March 2010

No. 67/2010 [F. No. 5/1/2007(Pt.)-Admn.-II]—On attaining the age of superannuation, Shri S. P. Veer, Deputy Secretary (Selection Grade) of Central Secretariat Service, has retired from Government Service on 28.02.2010 (A.N.), while holding the post of Deputy Secretary in the Ministry.

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 11th March 2010

No. A-32012/14/2006-ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. Kaushik Sarkar to the post of Assistant Director of Mines Safety (OH) Grade-I in the pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad, with effect from 15.02.2010 (F.N.) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.